










# REPORT OF THE ACTIVITIES CONDUCTED IN THE MONTH OF AUGUST'23

SUBJECTS	CLASS-3	CLASS-4	CLASS-5
ENGLISH	 <p>Activity- Show and tell</p>    <p>Activity-Performing an act</p>	  <p>Activity- Chain of rhyming words Students participated enthusiastically in this activity and enjoyed it a lot.</p>	<p><b>Explain monosyllabic and polysyllabic words with examples.</b></p>    <p><b>figure of speech S</b></p>





**Composed a Hai**

**HINDI**





**गतिविधि - चित्र वर्णन**

चित्र वर्णन गतिविधि के माध्यम से जहां विद्यार्थियों में रचनात्मक कौशल का विकास हुआ वहीं उनकी लेखन कला का विकास हुआ उन्होंने विभिन्न विषयों में चित्रों के द्वारा विषय को जाना एवं उस पर आधारित पंक्तियां भी लिखें



**गतिविधि - प्रेरक प्रसंग**


इस गतिविधि के द्वारा बच्चों ने भारत के राष्ट्रीय झंडे की महिमा पर आधारित कविता एवं लेख लिखें साथ



**गतिविधि - मेरा प्यारा देश**

इस गतिविधि में विद्यार्थियों ने भारत देश के उ चित्र बनाएं।इससे उनमें देशभक्ति की भावना ,साहस आदि गुणों का विकास हुआ। उन्होंने कर्तव्य को समझा एवं भविष्य में आशावादी संकल्प लिया।

में चित्र भी बनाया इससे उनमें देशभक्ति की भावना ,दृढ़ निश्चय ,परिश्रम, साहस आदि गुणों का विकास हुआ। इस गतिविधि में विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में भी जाना।



## MATHS

**ACTIVITY-** Fraction as a whole, half and quarters.

About the activity -

Learners summarize the activity by emphasizing how fractions represent parts of a whole and highlight the concept of halves and quarters.

This activity engages students in hands-on exploration of fractions as parts of a whole. It helps them visualize and understand the concept of halves and quarters using everyday objects and visual representations.

**ACTIVITY-** Factor tree

About the activity -

This hands-on activity helps them visually break down numbers into their prime factors using a tree-like structure.

Learners summarize the activity by reinforcing the concept of prime and composite numbers, as well as the process of factorization using a factor tree.

This activity engages students in a visual and interactive exploration of prime and composite numbers through factorization. It helps them grasp the concept by breaking down numbers into their prime factors step by step.


**ACTIVITY-** My Fraction flow

About the activity -

Learners summarize the activity by highlighting how the fraction flow helped students visualize a concept of fractions as parts of a whole in a creative way.

This activity engages students in hands-on learning while fostering their creativity. The fraction flow helps them understand fractions through visual representation and reflection.





**ACTIVITY-** My Fraction flower.  
 About the activity -  
 Learners summarize the activity by highlighting how the fraction flower craft helped students visualize and grasp the concept of fractions as parts of a whole in a creative way.  
 This activity engages students in hands-on learning while fostering their creativity. The fraction flower craft helps them understand fractions through visual representation and reflection.



**ACTIVITY** - My Fraction bird.  
 About the activity - The "My Fraction Bird" activity is a creative way for 5th-grade students to visualize fractions by combining art and mathematics. This activity engages students to visually represent fractions using a bird-themed craft. Learners summarize the activity by highlighting how the fraction bird craft helped students visually represent fractions as parts of a whole in a fun and memorable way. This activity engages students in hands-on learning and encourages their creativity. The fraction bird craft helps students visualize and understand fractions in a fun and interactive way.



## EVS

**ACTIVITY: FILTRATION AND DECANTATION**  
 Students went to science laboratory to perform experiments of filtration and decantation. These experiments generate curiosity and understanding among young minds.

**ACTIVITY: CELEBRATION OF INTERNATIONAL DAY FOR THE CONSERVATION OF MANGROVE ECOSYSTEM.**  
 There are about 80 different species of mangrove trees. A student saw a short film on mangrove forest.



**ACTIVITY CLEANLINESS**  
 We should make cleanliness because cleaning our body for good physical and mental health. The cleanliness of our surroundings and environment is essential for our physical and intellectual health. We should not compromise with cleanliness. Teachers must encourage students to adopt the habit of cleanliness and make this a part of our lives.



**ACTIVITY LET'S CHECK HEART RATE.**

Students understood the use of stethoscope and checked the heartbeat of their classmates. Students were made aware of the use of stethoscopes and also noted down their heart rate per minute.



**PRESENTATION DAY**  
Students gave presentations of their projects. This is a teamwork activity, and it helps to boost confidence and self-esteem of students.



